

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 10 फरवरी 2018—माघ 21, शक 1939

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2018

फा. क्र. 84 (12)-2017-चार-उप चु.-1814.—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के उप नियम 11(2) के अन्तर्गत 27-कोलारस एवं 34-मुंगावली विधान सभा उप चुनाव में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप 7-क) का सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशन किया जाता है.

राकेश कुशरे, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप-7 क

[नियम 10 (1) देखिये]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची
27-कोलारस निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिये उपनिर्वाचन

क्रम संख्यांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)	दल सहबद्धता (4)	आवृत्ति प्रतीक (5)
----------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------------

(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी


1 देवेन्द्र कुमार जैन,
पत्तेवाले




राम मंदिर वार्ड क्रमांक 13
सेठ मोहल्ला कोलारस
जिला शिवपुरी (म. प्र.)

भारतीय जनता
पार्टी







कमल




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	महेन्द्र-रामसिंह यादव "खतौरा"	 ग्राम व पोस्ट खतौरा तहसील बदरवास थाना इन्दार परगना कोलारस जिला शिवपुरी (म. प्र.)	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ







(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)

3	दशरथ सिंह यादव	 गृह संख्या 99/1 जहांगीराबाद बाजार तहसील हुजूर जिला भोपाल (म. प्र.)	जय लोक पार्टी	कांच का गिलास
---	----------------	---	---------------	---------------

(iii) अन्य अभ्यर्थी

4	अफजल शाह	 ग्राम व पोस्ट रन्नौद तहसील बदरवास जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्दलीय	एअरकंडीशनर
5	इमरान खान	 इमाम बाड़े के पास सईसपुरा शिवपुरी जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्दलीय	टेलीफोन
6	देवेन्द्र पिता जसमन्त सिंह	 ग्राम सांडर पोस्ट बारई थाना बदरवास तहसील बदरवास जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्दलीय	फलों से युक्त टोकरी
7	देवेन्द्र पिता मुन्नीलाल	 ग्राम मगरौरा पो. खतौरा तहसील बदरवास जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्दलीय	आँटो रिक्शा
8	देवेन्द्र सिंह यादव	 ग्राम बामौरखुर्द पोस्ट एजवारा तहसील बदरवास परगना कोलारस जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्दलीय	हॉकी और बॉल
9	दौजा राम जाटव	 ग्राम पनवारी पोस्ट कोलारस तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्दलीय	कैंची

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	पवन कुमार	 ग्राम व पोस्ट खतौरा तहसील बदरवास जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्दलीय	माचिस की डिब्बी
11	मनोज कुमार जाटव (सूर्यवंशी)	 ग्राम सड़ पोस्ट सड़ तहसील नरवर जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्दलीय	मेज
12	महेन्द्र सिंह यादव पिता कृपान सिंह	 ग्राम चन्दौरिया पोस्ट बारई तहसील बदरवास जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्दलीय	चूड़ियां
13	महेन्द्र सिंह यादव पिता जगदीश सिंह	 ग्राम व पोस्ट रन्नौद तहसील बदरवास जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्दलीय	गुब्बारा
14	महेन्द्र सिंह यादव पिता फेरन	 ग्राम पाली पोस्ट राजगढ़ तहसील कोलारस जिला शिवपुरी	निर्दलीय	तरबूज
15	महेन्द्र सिंह यादव टादा पिता रामचरन	 ग्राम पहाड़ी पोस्ट देहरोद तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्दलीय	अलमारी
16	महेन्द्र सिंह यादव, दादा पिता सुजान सिंह	 ग्राम मगरोल पोस्ट अटलपुर तहसील बदरवास जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्दलीय	अंगूठी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	“मुकेश राजौरिया” (जाटव)		ग्राम चकरा तहसील कोलारस जिला शिवपुरी	निर्दलीय बल्ला
18	राम सहाय यादव		ग्राम खड़पुरा तहसील करैरा जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्दलीय ट्रक
19	लखपत सिंह		ग्राम कड़ेसरा पोस्ट कार्या तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्दलीय चारपाई
20	वनवारी लाल जाटव		ग्राम सेमरी पोस्ट लेवा तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्दलीय प्रैशर कुकर
21	शंकर सिंह जाटव		ग्राम व पोस्ट कुटवारा तहसील बदरवास जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्दलीय बल्लेबाज
22	हरिओम केवट (मांझी)		ग्राम व पो. बामौर तहसील बदरवास जिला शिवपुरी (म. प्र.)	निर्दलीय खाने से भरी थाली

हस्ता./-

स्थान : कोलारस
तारीख : 9-2-2018.

(आर. ए. प्रजापति)
रिटर्निंग आफिसर,
27-कोलारस विधान सभा क्षेत्र.

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)



FORM 7-A
[See Rule 10(1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES


Bye Election to the Legislative Assembly from the 27-Kolaras Constituency

S. No. (1)	Name of Candidate (2)	Address of Candidate (3)	Party Affiliation (4)	Symbol Allotted (5)
---------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------




(i) Candidates of Recognized National and State Political Parties









1	Devendra Kumar Jain, Pattewale	 Ram Mandir Ward No. 13 Seth Mohalla Kolaras Distt. Shivpuri M. P.	Bharatiya Janata Party.	Lotus
2	Mahendra-Ramsingh Yadav "Khatora"	 Village & Post Khatora Tehsil Badarwas Thana Indar Pargana Kolaras Distt. Shivpuri M. P.	Indian National Congress.	Hand









(ii) Candidates of Registered Political Parties (Other than Recognized National and State Political Parties)

3	Dashrath Singh Yadav	 Home No. 99/1 Jahangeeravad Market Tehsil Hujur Distt. Bhopal M. P.	Jai Lok Party	Glass Tumbler
---	-----------------------------	---	---------------	------------------

(iii) Other Candidates (Independent Candidates)

4	Afzal Shah	 Village & Post Rannod Tehsil Badarwas Distt. Shivpuri M. P.	Independent	Air Conditioner
5	Imran Khan	 Imam Bade Ke Pass Saipura Shivpuri Distt. Shivpuri M. P.	Independent	Telephone
6	Devendra S/o Jasmant Singh	 Village Saandar Post Barai Thana Badarwas Tehsil Badarwas Distt. Shivpuri M. P.	Independent	Basket Containing Fruits

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Devendra S/o Munnilal	 Village Magrora Post Khatora Tehsil Badarwas Distt. Shivpuri M. P.	Independent	Auto Rickshaw
8	Devendra Singh Yadav	 Village Bamorkhurd Post Ajvara Tahsil Badarwas Pargana Kolaras Distt. Shivpuri M. P.	Independent	Hockey and Ball
9	Dauja Ram Jatav	 Village Panvari Post Kolaras Tehsil Kolaras Distt. Shivpuri M. P.	Independent	Scissors
10	Pavan Kumar	 Village & Post Khatora Tahseel Badarwas Distt. Shivpuri M. P.	Independent	Match Box
11	Manoj Kumar Jatav (Suryawanshi)	 Village Sad Post Sad Tehsil Narvar Distt. Shivpuri M. P.	Independent	Table
12	Mahendra Singh Yadav S/o Kripan Singh	 Village Chandoriya Post Barai Tehsil Badarwas Distt. Shivpuri M. P.	Independent	Bangles
13	Mahendra Singh Yadav S/o Jagdeesh Singh	 Village & Post Rannod Tehsil Badarwas Distt. Shivpuri M. P.	Independent	Balloon
14	Mahendra Singh Yadav S/o Feran	 Village Pali Post Rajgarh Tehsil Kolaras Distt. Shivpuri	Independent	Water Melon

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Mahendra Singh Yadav Dada S/o Ramcharan	 Gram Pahadi Post Dehrod Tehsil Kolaras Distt. Shivpuri M. P.	Independent	Almirah
16	Mahendra Singh Yadav, Dada S/o Sujan Singh	 Village Maagrol Post Atalpur Tehsil Badarvas Distt. Shivpuri M.P.	Independent	Ring
17	“Mukesh Rajoriya” (Jatav)	 Village Charka Tehsil Kolaras Distt. Shivpuri M.P.	Independent	Bat
18	Ram Sahay Yadav	 Village Khadpura Tehsil Karera Distt. Shivpuri M.P.	Independent	Truck
19	Lakhat Singh	 Village Kadesara Post Karya Tehsil Kolaras Distt. Shivpuri M.P.	Independent	Cot
20	Vanvari Lal Jatav	 Village Semri Post Leva Tehsil Kolaras Distt. Shivpuri M.P.	Independent	Pressure Cooker
21	Shankar Singh Jatav	 Village & Post Kutwara Tehsil Badarvas Distt. Shivpuri M.P.	Independent	Batsman
22	Hariom Kewat (Manjhi)	 Village & Post Bamor Tehsil Badarwas Distt. Shivpuri M.P.	Independent	Plate Containing Food

Place : Kolaras
Date : 09-02-2018

Sd./-
(R. A. PRAJAPATI)
Returning Officer,
27-Kolaras Legislative Assembly.

प्ररूप-7 क
[नियम 10 (1) देखिये]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची
34-मुंगावली निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिये उपनिर्वाचन

क्रम संख्यांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)	दल सहबद्धता (4)	आवंटित प्रतीक (5)
----------------------	------------------------	------------------------	--------------------	----------------------

(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी

1. बाईसाहब
राव देशराजसिंह
यादव



ग्राम अमरोद पोस्ट डंगोराफूट
तहसील पिपरई
जिला अशोकनगर म. प्र.

भारतीय जनता
पार्टी

कमल

2. बृजेन्द्र सिंह यादव



ग्राम सूरेल पोस्ट खिरकाटांका
तहसील चन्देरी
जिला अशोकनगर म. प्र.

इंडियन नेशनल
काँग्रेस

हाथ

(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)

3. ऊधमसिंह कुशवाह



ग्राम सालरी पोस्ट मुगलसराय
तहसील सिरोंज
जिला विदिशा म. प्र.

महानवादी पार्टी

हॉकी और बॉल

(iii) अन्य अभ्यर्थी

4. प्रवीण लोधी



श्रीराम प्रकाश सिंह नरवरिया
कमला कुटी स्टेशन रोड
मुंगावली जिला अशोकनगर
म. प्र.

पिछड़ा समाज पार्टी
यूनाइटेड

गीटी








5. राजकुमार नरवरिया




रेलवे स्टेशन के पास
मुंगावली जिला अशोकनगर
म. प्र.

राष्ट्रीय महान
गणतन्त्र पार्टी

आदमी व पालयुक्त
नौका

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. अकलवती अहिरवार		ग्राम नयाखेडा पोस्ट नयाखेडा तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर म. प्र.	निर्दलीय	अलमारी
7. अनरत सिंह अहिरवार		ग्राम सांवलहेडा पोस्ट बिल्हेरू थाना व तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर म. प्र.	निर्दलीय	बाल्टी
8. अभय सिंह		ग्राम सुनपुरा तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर म. प्र.	निर्दलीय	एअरकंडीशनर
9. आशीष आनन्द पालीवल		मकान क्रमांक 12 स्टेशन रोड मुंगावली तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर म. प्र.	निर्दलीय	ऑटो-रिक्शा
10. जगदीश		मजरा हरिपुर तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर म. प्र.	निर्दलीय	गुब्बारा
11. लालाराम टडैया		ग्राम छैवलाई तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर म. प्र.	निर्दलीय	हीरा
12. मो. सलीम		आजाद मोहल्ला वार्ड नम्बर 10 अशोकनगर जिला अशोकनगर	निर्दलीय	केक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. सावित्री लोधी		ग्राम रांवसर पोस्ट व तहसील अशोकनगर जिला अशोकनगर (म. प्र.)	निर्दलीय	ब्लैक बोर्ड

हस्ता./-

स्थान-मुंगावली
तारीख 9-2-2018

(रवीश श्रीवास्तव)
रिटर्निंग आफिसर
34-मुंगावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र,

**Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)**



FORM 7-A
[See Rule 10(1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES


Bye Election to Legislative Assembly from the 34-Mungaoli Constituency



S. No.	Name of Candidate	Address of Candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)




(i) Candidates of Recognized National and State Political Parties

1	Bai Sahab Rao Deshraj Singh Yadav		Village Amrod Post Dangoraphut Tehsil Piprai Distt. Ashoknagar (M. P.)	Bharatiya Janata Party.	Lotus
2	Brajendra Singh Yadav		Village Surael Post Khirkatanka Tehsil Chanderi Distt. Ashoknagar (M. P.)	Indian National Congress.	Hand

(ii) Candidates of Registered Political Parties (Other than Recognized National and State Political Parties)

3	Udham Singh Kushwah		Village Salari Post Mugalsarai Tehsil Sironj Distt. Vidisha (M. P.)	Mahanwadi Party	Hockey and Ball
---	----------------------------	---	--	-----------------	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Praveen Lodhi	 Shriram Prakash Singh Narwariya Kamala Kuti Station Road, Mungaoli Distt. Ashoknagar (M. P.)	Pichhara Samaj Party United	Whistle
5	Rajkumar Narwariya	 Near Railway Station Mungaoli Distt. Ashoknagar (M. P.)	Rashtriya Manan Gantantra Party	Boat with Man and Sail
(iii) Other Candidates (Independent Candidates)				
6	Akalvati Ahirwar	 Village Nayakheda Post Nayakheda Tehsil Chanderi Distt. Ashoknagar (M. P.)	Independent	Almirah
7	Anarat Singh Ahirwar	 Village Sanvalheda Post Bilehru Tehsil Mungaoli Distt. Ashoknagar (M. P.)	Independent	Bucket
8	Abhay Singh	 Village Sunpura Tehsil Chanderi Distt. Ashoknagar (M. P.)	Independent	Air Conditioner
9	Ashish Anand Paliwal	 House No. 12 Station Road Mungaoli Distt. Ashoknagar (M. P.)	Independent	Auto-Rickshaw
10	Jagdish	 Majara Haripur Tehsil Chanderi Distt. Ashoknagar (M. P.)	Independent	Balloon

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Lalaram Tadiya	 Village Chhaiwlai Tehsil Mungaoli Distt. Ashoknagar (M. P.)	Independent	Diamond
12	Mo. Salim	 Aazad Mohalla Ward No. 10 Ashoknagar Distt. Ashoknagar (M. P.)	Independent	Cake
13	Savitri Lodhi	 Village Raonsar Post and Tehsil Ashoknagar Distt. Ashoknagar (M. P.)	Independent	Black Board

Place : Mungaoli
Date : 09-02-2018

Sd./-
(RAVISH SHRIVASTAVA)
Returning Officer,
34-Mungaoli Legislative Assembly